



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 812) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(पू0)—01—12/2007/1221—श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज के विरुद्ध वर्ष 2006—07 में नहर सम्पोषण कार्यों में राशि की लूट करने से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0—696 दिनांक 22.08.08 द्वारा निम्न गठित आरोप के लिये स्पष्टीकरण पूछा गया:—

मधवापुर लघु नहर के वि0 दू0 2.00 से 10.00 तक नहर तल सफाई एवं बांध सुदृढीकरण के लिए कुल 44,838/— रूपयों की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा दी गयी। परन्तु बिना कार्य कराये उक्त रूपये का फर्जी भुगतान आपके द्वारा किया गया। अतः कुल 44,838/— रूपयों के फर्जी भुगतान हेतु आप दोषी है।

श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार अपने पदस्थापन अवधि में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के पूर्व कार्य कराने, कार्य के विरुद्ध अग्रिम देने एवं कार्य का रिकार्ड इन्ट्री नहीं कराने के लिए दोषी है। समीक्षोपरान्त आपको निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:—

“दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश कुमार को दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 812-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>